



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1943 (श10)
(सं० पटना 108) पटना, बुधवार, 16 मार्च 2022

पत्रांक 1/प्रा०आ०-0-3-82/2021-954/आ०प्र०

आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

10 मार्च 2022

विषय — रूस-यूक्रेन युद्ध के फलस्वरूप यूक्रेन में उत्पन्न वर्तमान संकट के कारण वहाँ के अलग-अलग हिस्सों में फँसे हुए बिहार के छात्रों/निवासियों के निष्क्रमण कर गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने एवं इस हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष — 2245-02-112-0002-जनसंख्या निष्क्रमण मद (राज्य संसाधन) से व्यय किए जाने के संबंध में।

रूस-यूक्रेन युद्ध के फलस्वरूप यूक्रेन में उत्पन्न वर्तमान संकट के कारण वहाँ के अलग-अलग हिस्सों में फँसे हुए बिहार के छात्रों/निवासियों की सकुशल घर वापसी सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र में Help Desk बनाया गया है। यूक्रेन में फँसे छात्रों को दिल्ली एवं मुम्बई एयरपोर्ट पर लाया जा रहा है, जहाँ से बिहार भवन, नई दिल्ली एवं बिहार फाउंडेशन के द्वारा छात्रों को रिसीव कर उन्हें वायुयान के द्वारा बिहार भेजा जा रहा है। पटना/दरभंगा/बागडोगरा एयरपोर्ट से जिला प्रशासन के द्वारा इन छात्रों को रिसीव कर वाहनों से उनके गंतव्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। इस हेतु बिहार भवन, नई दिल्ली के द्वारा छात्रों के रहने, भोजन एवं वायुयान टिकट की व्यवस्था की जा रही है एवं जिला प्रशासन के द्वारा उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने हेतु वाहनों एवं भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इन सभी कार्यों में राशि का व्यय हो रहा है।

2. राज्य वापस लौट रहे बिहार के उक्त छात्रों/निवासियों के निष्क्रमण पर होने वाले व्यय के वहन हेतु अलग से शीर्ष निर्धारित नहीं है। अतएव यूक्रेन में उत्पन्न वर्तमान संकट के कारण वहाँ के अलग-अलग हिस्सों में फँसे हुए बिहार के छात्रों/निवासियों के निष्क्रमण कर गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने एवं इस हेतु राज्य संसाधन के मांग संख्या

— 39, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष — 2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष —02— बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष— 112—जनसंख्या का निष्क्रमण, उप शीर्ष— 0002—जनसंख्या का निष्क्रमण, विपत्र कोड— 39 — 2245021120002, विषय शीर्ष —35 01 —नगद/वस्तु से व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. उपर्युक्त कंडिका 2 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 08.03.2022 की बैठक में स्वीकृति दी गई है।

आदेश : — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 108-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>